



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 1 राँची, सोमवार,

1 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2019

संख्या- 03/प्रोन्नति-02-01/2019 का.- 8651-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०- 1411 दिनांक 15.02.19 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव कोटि से विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया था ।

"विशेष सचिव कोटि के पद रिक्त रहने पर अपर सचिव कोटि में कार्यरत पदाधिकारी जिनके द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि तथा अपर सचिव कोटि में (दोनों पदों पर व्यतीत कुल कालावधि को मिलाकर) कुल दो वर्ष की निर्धारित कालावधि पूर्ण कर ली गई हो उन्हें विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जा सकती है।"

उक्त अधिसूचना की पुनः समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत अधिसूचना सं०-1411 दिनांक 15.02.19 को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के०के० खण्डेलवाल,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।
